

Girls' High School and College, Prayagraj

Work Sheet No - 7

Session - 2020-21

Class - 1 (A-F)

Subject - Hindi

Topic - अं (अनुस्वार) ☐

अः (विसर्ग) ☐

निर्देश — सभी अभिभावकों से अपेक्षा की जाती है कि वे बच्चों को अं-ं और अः-ः की मात्रा वाले शब्दों का उच्चारण करने का और लिखने का अभ्यास कराएँ। पाठ को पढ़ाएँ और दिया गया कार्य करने में सहायता करें।

1 अं-ं की मात्रा वाले शब्दों को दो-दो बार बोलकर और लिखकर अभ्यास करें —

रंग	रंग	रंग	कंधा	कंधा	कंधा
संग	_____	_____	जंगल	_____	_____
जंग	_____	_____	पंकज	_____	_____
तंग	_____	_____	बंदर	_____	_____
शंगा	_____	_____	मंदिर	_____	_____

2- अं-ं की मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा करो —

कंधा	सुरंग
बंदर	पंकज
शंगा	मंगल
जंगल	मंदिर

## पाठ - अं (अनुस्वार) ☺

तनु देखो, बंदर आया। बंदर घर के अंदर चला आया।  
पंकज ने डंडा उठाया। बंदर भाग गया। अब बंदर  
मंदिर की दहत पर जा बैठा। पुजारी के जाने पर बंदर  
मंदिर के अंदर चला गया।

3- नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पढ़कर और लिखकर  
याद करें —

- 1-प्र०- घर के अंदर कौन चला आया?  
उ०- घर के अंदर बंदर चला आया।
- 2-प्र०- बंदर कहाँ जा बैठा?  
उ०- बंदर मंदिर की दहत पर जा बैठा।
- 3-प्र०- पुजारी के जाने के बाद बंदर कहाँ चला गया?  
उ०- पुजारी के जाने के बाद बंदर मंदिर के अंदर चला गया।
- 4- खाली जगह भरौ -

- 1- तनु देखो — आया।  
2- बंदर घर के — चला आया।  
3- — ने डंडा उठाया।
- 5- सही पर (✓) और गलत पर (x) का निशान लगाओ -

- 1- तनु देखो भालू आया।   
2- पंकज बंदर को देखकर डर गया।   
3- बंदर मंदिर की दहत पर जा बैठा।

अः (विसर्ग) □

अः - : की मात्रा वाले शब्दों को दो-दो बार बोलकर और लिखकर अभ्यास करें —

दः	_____	_____
नमः	_____	_____
पुनः	_____	_____
अतः	_____	_____
दुःख	_____	_____
प्रायः	_____	_____
प्रातः	_____	_____
फलतः	_____	_____
अंततः	_____	_____
निःशेष	_____	_____

अः - : की मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा करो —

दः	प्राय्
दुःख	प्रात्
पुन्	फलत्
अत्	अंतत्

## पाठ - अ: (विसर्ग) :

प्रातः काल द्दः बजे उठकर सैर करने जाओ। प्रातः काल सूरज आकाश में चमकता है। सूरज को नमः करो। प्रातः काल सैर करने से शरीर को बल मिलता है। दुःखी लोगों को दुःख मत दो। किसी भी दुःखी का दुःख नाँट लो। अपना पाठ पुनः याद करो।

3- नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ को बोलकर और लिखकर याद करें -

प्रातः	सुबह	सैर	घूमना
नमः	नमस्ते	बल	ताकत
पुनः	फिर से		

4- नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को पढ़कर और लिखकर याद करो -

- 1- प्र०- प्रातः काल कब सैर करने जाओ?  
उ०- प्रातः काल द्दः बजे सैर करने जाओ।
- 2- प्र०- किसको नमः करो?  
उ०- सूरज को नमः करो।
- 3- प्र०- सैर करने से शरीर को क्या मिलता है?  
उ०- सैर करने से शरीर को बल मिलता है।

5- खाली जगह भरो -

- 1- सूरज को \_\_\_\_\_ करो।
- 2- अपना पाठ \_\_\_\_\_ याद करो
- 3- प्रातः काल सैर करने से शरीर को \_\_\_\_\_ मिलता है।